



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 308) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

##### अधिसूचना

09 जनवरी 2014

**सं0 1884**—पटना जिलान्तर्गत दुजरा, बुद्धा कॉलोनी स्थित दुजराचक देवी स्थान, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-4289 है।

स्थानीय जनता से प्राप्त आवेदन पत्र में यह निवेदन किया गया था कि यह एक सार्वजनिक मन्दिर है, अतः पर्षद में इसका निबंधन कर लिया जाय और इसके सुचारु प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति गठित कर दी जाय ताकि मन्दिर को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और भक्तों को पूजा-पाठ में कोई व्यवधान नहीं हो एवं असामाजिक तत्वों से इसे मुक्ति मिल सके। इसके आलोक में पर्षद इस मन्दिर का निबंधन दिनांक 09.12.2013 को किया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम भी अनुशंसित किया है। इस प्रकार इस न्यास के सुचारु प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप-विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **दुजराचक देवी स्थान**, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण और इसे मूर्त रूप देने तथा संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

##### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“दुजराचक देवी स्थान न्यास योजना”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“दुजराचक देवी स्थान न्यास समिति, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना”** होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव-सह-कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचितता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति मन्दिर में पूजा-अर्चना हेतु आने वाले भक्तों, विशेषकर महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखेगी तथा मंदिर को अवांछनीय तत्वों से मुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई करेगी।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

12. न्यास समिति के सदस्य यदि किसी आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे या उनकी कोई आपराधिक संलिप्तता भी होगी, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया जाता है:-

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| (1) श्री रंजन सिंह   | — | अध्यक्ष            |
| पता— मनोरमा कुंज, बुद्धा कॉलोनी, पटना।                         |   |                    |
| (2) डॉ० उदय दत्त कुमार बोस                                     | — | सचिव—सह—कोषाध्यक्ष |
| पता— विन्ध्य एपार्टमेंट, फ्लैट नं०— 202, बुद्धा कॉलोनी, पटना।  |   |                    |
| (3) श्री अनिल कुमार उपाध्याय                                   | — | सदस्य              |
| पता— दुजराचक, बुद्धा कॉलोनी, पटना।                             |   |                    |
| (4) श्री महेश नाथ ओझा  | — | सदस्य—सह—महन्त     |
| पता— दुजरा पहलवान घाट (शिव मंदिर के निकट), पटना।               |   |                    |
| (5) श्री अतुल कुमार  | — | सदस्य              |
| पता— फ्लैट नं०— बी०— 2, बिमला विला, बुद्धा कॉलोनी, पटना।       |   |                    |
| (6) श्री संजीत कुमार सिंह                                      | — | "                  |
| पता— फ्लैट नं०— ए-2, शैल विला एपार्टमेंट, बुद्धा कॉलोनी, पटना। |   |                    |
| (7) श्री रजनीश   | — | सदस्य              |
| पता— मनोरमा कुंज, बुद्धा कॉलोनी, पटना।                         |   |                    |
| (8) श्री अर्जुन भगत  | — | "                  |
| पता—दुजरा दुसाध टोली, गांधी मूर्ति के निकट, दुजरा, पटना।       |   |                    |
| (9) श्री सौमेन्द्र कुमार पाण्डे                                | — | "                  |
| पता— बाथू वासा, बुद्धा कॉलोनी, पटना।                           |   |                    |
| (10) श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा                               | — | "                  |
| पता— दुजराचक देवी स्थान के निकट, बुद्धा कॉलोनी, पटना।          |   |                    |
| (11) श्री संजीव कुमार सिंह                                     | — | "                  |
| पता— बी०— 81, बुद्धा रेजीडेंसी, बुद्धा कॉलोनी, पटना।           |   |                    |

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 01/01/2014 से 05 वर्ष का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 308-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>